

केदारनाथ में भीषण आपदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केदारनाथ](#) में [बादल फटने](#) से व्यापक क्षति हुई, जिससे [सोनप्रयाग](#) में [मंदाकनी नदी](#) का जलस्तर तेज़ी से बढ़ गया।

- ऐसी परिस्थिति में आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि अधिकारियों को [केदारनाथ](#) में 150 से 200 तीर्थयात्री फँसे होने की आशंका है।

मुख्य बड़ि

- बादल फटने से [केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलति हुआ](#), जिससे मार्ग का लगभग 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण लोगों की सुरक्षा के चलते इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
 - [हरदिवार](#) में भीषण वर्षा के कारण क्षेत्र में [बाढ़](#) की स्थिति उत्पन्न हुई। भूपतवाला, हरदिवार, नया हरदिवार, कनखल और ज्वालापुर जैसे इलाके इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुए।
- [क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र](#) ने उत्तराखंड के सात जिलों में अत्यधिक भीषण वर्षा के लिये रेड अलर्ट जारी किया।

मंदाकनी नदी

- यह उत्तराखंड में [अलकनंदा नदी](#) की एक सहायक नदी है।
- यह नदी [रुद्रप्रयाग](#) और [सोनप्रयाग](#) क्षेत्रों में लगभग 81 किलोमीटर तक वसित है तथा [चोराबाड़ी हमिनद](#) से निकलती है।
- मंदाकनी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी में मलि जाती है और [उखीमठ](#) में [मध्यमहेश्वर मंदिर](#) के पास से बहती है।
- अपने मार्ग के अंत में यह अलकनंदा में गरिती है, जो [गंगा](#) में मलि जाती है।